

1. बोर्डिंग अथवा प्रस्थान द्वार

अमेरिका में आगमन पर जन स्वास्थ्य अधिकारी बेतरतीब ढंग से आपके कोविड-19 संबंधी प्रलेखन की जाँच कर सकते हैं, जिसे कि आपको उस समय दिखाने की आवश्यकता पड़ी थी, जब आप इस उड़ान में सवार हुए थे। इसमें आपके कोविड-19 परीक्षण परिणाम या कोविड-19 के रिकवरी प्रलेखन और यदि लागू हो, तो कोविड-19 टीकाकरण शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति को, 2 वर्ष से कम उम्र वालों को छोड़कर, इस प्रलेखन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। कृपया निरीक्षण के लिए उपलब्ध अपने पासपोर्ट के साथ-साथ इस प्रलेखन को भी रखें। अगर आपका कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण, कोविड-19 परीक्षण परिणाम या रिकवरी का आपका प्रलेखन डिजिटल और मोबाइल डिवाइस पर है, निरीक्षण के लिए इस जानकारी को प्रीलोड करें। जब हम एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो हो सकता है कि इंटरनेट तक पहुँच उपलब्ध न हो, अतः आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को दिखाने के लिए अपनी मोबाइल डिवाइस पर स्क्रीन कैप्चर (या दस्तावेज़ीकरण का स्क्रीन शॉट/पिक्चर) रखने की आवश्यकता पड़ सकती है।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, जो कि कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने के प्रयासों में अत्यावश्यक है। एक बार फिर, जब आप विमान से उतरते हैं तो निरीक्षण के लिए अपने पासपोर्ट, कोविड-19 के परीक्षण परिणामों या कोविड-19 रिकवरी के प्रलेखन और कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण, यदि लागू हो, तैयार रखें।

2. अमेरिका में आगमन पर

अमेरिका में आपका स्वागत है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी बेतरतीब ढंग से आपके कोविड-19 संबंधी प्रलेखन की जाँच कर सकते हैं, जिसे इस उड़ान में सवार होते समय आपको दिखाने की आवश्यकता पड़ी थी। इसमें आपके कोविड-19 परीक्षण परिणाम या कोविड-19 के रिकवरी प्रलेखन और यदि लागू हो, तो कोविड-19 टीकाकरण शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति को, 2 वर्ष से कम उम्र वालों को छोड़कर, इस प्रलेखन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है। कृपया जन स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध, जानकारी पेज के लिए खुले अपने पासपोर्ट के साथ-साथ इस प्रलेखन को भी रखें। अगर आपका कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण, कोविड-19 परीक्षण परिणाम या रिकवरी का आपका प्रलेखन डिजिटल और मोबाइल डिवाइस पर है, निरीक्षण के लिए इस जानकारी को प्रीलोड करें। हो सकता है कि एयरपोर्ट पर इंटरनेट तक पहुँच उपलब्ध न हो, अतः आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को दिखाने के लिए अपनी मोबाइल डिवाइस पर स्क्रीन कैप्चर (या दस्तावेज़ीकरण का स्क्रीन शॉट/पिक्चर) रखने की आवश्यकता पड़ सकती है।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, जो कि कोविड-19 के प्रसार को धीमा करने के प्रयासों में अत्यावश्यक है। एक बार फिर, जब आप विमान से उतरते हैं तो निरीक्षण के लिए अपने पासपोर्ट, कोविड-19 के परीक्षण परिणामों या कोविड-19 रिकवरी के प्रलेखन और कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण, यदि लागू हो, तैयार रखें।